

HIN3A13a

(Expression orale)

Cours-1

Activité : raconter un voyage en s'inspirant du texte et le vocabulaire ci-dessous

Explorer l'idée: la nécessité, l'utilité des voyages pour apprendre une langue et connaître une culture

भारत के राज्यों का भ्रमण

भारत - यात्रा का देश है जो पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है और पर्यटन योग्य एक सभ्यता है। दुनिया भर से पर्यटक भारत की मनोरम दृश्यावली, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता और शांति की खोज में आते हैं और यहां उन्हें न केवल भारत से ये सब लाभ मिलते हैं बल्कि इससे कुछ अधिक प्राप्त होता है। सौ करोड़ लोगों की आबादी वाले एक देश में जहां 1500 से अलग अलग भाषाओं में दस लाख से अधिक बोलियां हैं, भारत अनेक प्रकार के लोगों का फलने फूलने वाला देश है, जो विविधता के साथ आगे बढ़ता है और यहां की विशालता सभी को समाहित कर लेती है।

भ्रमण^m tour, excursion ; पर्यटक^m touriste ; स्वर्ग^m paradis ; पर्यटन^m tourisme ; योग्य capable, digne ; सभ्यता^f civilisation मनोरम belle ; दृश्यावली^f une série de vues (paysages) ; सांस्कृतिक culturel ; विविधता^f diversité ; भौगोलिक géographique ; लाभ^m profit, bénéfice ; करोड़ 10.000.000 ; फलना फूलना prospérer, se multiplier ; विशालता^f grandeur ; समाहित intégré, fusionné

परिचय - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

नई दिल्ली भारत की राजधानी^f capitale और तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह आधुनिक modern और प्राचीन ancien अवधि का अद्भुत merveilleux सम्मिश्रण^m mélange हैं। गंगा के मैदानों के पश्चिमी सिरे पर स्थित राजधानी दिल्ली संस्कृति, वास्तुकला^f architecture और मानव विविधता^f diversité, इतिहास की गहराइयों, स्मारकों^m mémorial, monument, संग्रहालयों, चित्रदीर्घाओं^f galerie d'art, उद्यानों एवं विशिष्ट प्रदर्शनों से भरपूर एक जीवंत vivant शहर है। यहां दो विपरीत किन्तु मिली जुली संस्कृतियां हैं, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली जो उत्तरी भारत का यात्रा केन्द्र हैं। शहर के मुगल इतिहास की गवाह पुरानी दिल्ली यहां की भव्य मस्जिदों, स्मारकों और किलों के बीच गुजरते हुए तंग गलियों का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। आप यहां रंग बिरंगे और जीवंत बाजार भी देख सकते हैं जहां चौका देने वाली कीमत पर सभी प्रकार के सामान मिलते हैं।

यह सांस्कृतिक गतिविधियों, वार्ताओं^f dialogue, conférence, नाटक निर्माण और भारतीय और विदेशी निर्देशकों द्वारा बनाई गई फिल्मों से लेकर कला प्रदर्शनियों जैसी गतिविधियों से भरपूर है। यहां लोदी रोड पर स्थित भारत पर्यावास^m environnement naturel/habit केन्द्र में होने वाली गतिविधियों से लेकर खेल गांव के सिरी फोर्ट में अनेक आयोजन किए जाते हैं। दिल्ली शहर में पेड़ों की हरियाली के साथ सरकारी इमारतों के बीच सुसंगठित और चौड़ी सड़कें इस शहर का आकर्षण बढ़ाती हैं।